HISAR METAL INDUSTRIES LIMITED

Regd. Off & Works: Near Industrial Development Colony, Hisar-125005 (HRY)
Phone: 01662-220067,220367,220738 Fax 01662-220265
Email :info@hisarmetal.com, Web www.hisarmetal.com
CIN No: L74899HR1990PLC030937

May 30, 2019

Corporate Relationship Department Bombay Stock Exchange Phiroze Jeejeebhoy Towers Dalal Street Mumbai - 400 001 Scrip Code: 590018 (Permitted Security/BSE indonext) Corporate Listing Department
National Stock Exchange of India Limited
Exchange Plaza, 5th Floor
Plot No. C-1, G Block
Bandra Kurla Complex, Bandra East
Mumbai – 400051
Scrip Code: HISARMETAL

Sub: Newspaper Publication for Audited financial results for the Quarter & Year ended on March 31, 2019

Dear Sir / Madam

Please find enclosed herewith newspaper publication of Audited Financial Results of the company for the quarter & year ended on 31st March, 2019 which is published in "The Financial Express" (English-Newspaper) and "Jansatta" (Hindi-Newspaper) on 30/05/2019.

This is for your kind information and records.

Thanking You,

Yours faithfully,

For Hisar Metal Industries Limited

(Vishesh Kumar Chugh)

GM (Finance) & Company Secretary

FINANCIAL EXPRESS

Data	-	20 05 10	3
Date		29.05.19	2

HISAR METAL INDUSTRIES LIMITED

Registered Office: Near Industrial Development Colony, Delhi Road, Hisar - 125005 (Haryana)
Email: info@hisarmetal.com; Website: www.hisarmetal.com
Tel.: (01662) 220067, 220367, 220738 Fax: (011) 43851119
CIN: L74899HR1990PLC030937

Audited Financial Results for the Quarter and Year Ended on March 31, 2019
(Rs. in lakhs except as stated)

	Particulars	Quarter ending 31.03.2019	Quarter ending 31,03,2018	Year ending 31.03.2019	Year ending 31.03.2018
		(Audited)	(Audited)	(Audited)	(Audited)
1	Total Income from Operations	5660	5766	20756	23646
2	Net Profit/(Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	236	189	700	745
3	Net Profit/(Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	236	189	700	745
4	Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	175	129	532	513
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	175	- 125	532	497
6	Equity Share Capital	540	540	540	540
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet			1868	1401
8	Earnings Per Share (of Rs.10/- each) (for continuing and discontinued operations)- Basic and Diluted	3.24	- 2.31	9.85	9.20

Notes:

- The above-mentioned audited results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their respective meetings held today i.e. May 29, 2019.
- These financial results have been prepared in accordance with the Indian Accounting Standards ("Ind AS") as prescribed under section 133 of the Companies Act, 2013 read with Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015, as amended.
- 3) Post the applicability of Goods and Service Tax (GST) w.e.f July 01, 2017, revenue from operations, after effective date, are disclosed net of GST, whereas Excise duty and Cess formed part of Expenses in previous periods. Accordingly, the revenue and expenses for year ended 31st March 2019 are not comparable with the previous year ended 31st March 2018.
- 4) The Board of Directors in its meeting held today i.e. May 29, 2019 have recommend dividend @10% i.e. Rs. 1/- per equity share of Rs. 10 for the year 2018-19 subject to the approval of members at the Anuual General Meeting.
- 5) The Company is operating in single segment hence segment wise reporting is not applicable on the Company.
- The corresponding figures for the previous periods have been regrouped/reclassiffied, wherever necessary, to make them comparable.
- 7) The figures of the last quarter are the balancing figures between audited figures in respect of full financial year and the published year to date figures upto the third quarter for the financial year.
- 8) The above is an extract of the detailed format of Financial Results for the quarter and year ended 31st March, 2019 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Financial Results are available on the Stock Exchanges website (www.bseindia.com & www.nseindia.com) and on Company's website (www.hisarmetal.com)

For and on behalf of Board of Directors

(Abhiram Tayal) Managing Director DIN 00081453

0.25	3.95	3.50	2.12
45.70	445.70	445.70	445.70
-		38.10	34.60
0.01	0.09	0.08	0.05 0.05

with the Stock Exchanges under Regulation The full format of the Quarterly/Yearly Financial and on the website of the Company at

> For Divinus Fabrics Limited Sd/-(Gagan Anand) Managing Director DIN: 06957651

yana-121004 intl.co.in,



d	/ear	énded	31st	March,	2019
10.00	-Cui				

			(Rs. In Lacs)
arter	ended	Year e	nded
019 (d)	31-03-2018 (Audited)	31-03-2019 (Audited)	31-03-2018 (Audited)
136	334.29	4,704.78	1,140.52
64	189.75	279.59	34.52
64	189.75	279.59	34.52
8.84	189.75	200.80	33.71
5.84	189.75	200.80	33.71
9_59	322.59	322.59	322.59
427	5.88	6.22	
127	5.88	6.22	1.04
F) 27			47 31,
2.27		r SPS Interna	

For SPS International Limited

Surendra Kumar Jain (Managing Director) DIN: 00088064

nancial Results filed with the Stock Exchanges legulations, 2015. The full format of the Quarterly ange's website.







MEFCOM CAPITAL MARKETS LIMITED

Regd. Office: - 5th Floor, Sanchi Building, 77, Nehru Place, New Delhi - 110 019

CINI: I 74899DI 1985PI C019749

100	CIN. L74699DL1965PLC019749						
	Extract of Statement	of Audited Fin	ancial Result	s for the year	r ended 31st	March, 2019	(Rs. in Lacs)
S.	PARTICULARS		STAND	ALONE		CONS	OLIDATED
No.		Quart	er ended	Year er	nded	Year ended	
100	9	31.03.2019	31.03.2018	31.03.2019	31.03.2018	31.03.2019	31.03.2018
e e		Audited	Audited	Audited	Audited	Audited	Audited
1	Total Income from operations	19.16	409.47	101.05	1,883.24	363.81	2,573.25
2	Net Profit /(Loss) for the period before tax	(14.50)	(108.64)	(114.48)	56.72	(250.56)	50.95
3	Net Profit /(Loss) for the period after tax	(40.61)	(108.64)	(110.90)	56.72	(246.77)	50.95
4	Total Comprehensive Income for the Period	(113.48)	(197.31)	(301.53)	(67.22)	(439.31)	(100.68)
5	Equity Share Capital (Paid-up) (FV of Rs. 10/- each)	914.02	914.02	914.02	914.02	914.02	914.02
6	Reserves excluding revaluation reserves (as shown in balance sheet of previous year)	-		364.73	666.25	238.37	650.10
7	Earning Per Share - Basic/ Diluted (Rs.per equity share)	0.44	(1.19)	1.21	0.62	(2.10)	0.58

The above is an extact of the detailed financial Results for the quarter and year ended 31st March, 2019 filled with Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Regulrements) Regulations, 2015. The full standalone and consolidated financial results in prescribed format are avialable on the Stock Exchange websites (www.bseindia.com) and Company's Website www.mefcom.in.

The Company has adopted Indian Accounting standards ('Ind AS') from 1st April, 2017 (transition date April 01, 2016) and accordingly, these financial results have been prepared in accordance Companies (Indian Accounting Standard) Rules, 2015 as prescribed under section 133 of the Companies Act, 2013, read with relevant rules issued thereunder and the other accounting principles generally accepted in India.

The above results were reviewed by the Audit Committee and thereafter approved and taken on record by the Board of Directors in their meeting held on May 28, 2019.

The figures of the previous period(s)/ year have been regrouped/ restated wherever considered necessary.

For Mefcom Capital Markets Ltd

Vijay Mehta **Managing Director**

Place: New Delhi Date: 28-May-19

हिसार मेटल इंड्स्ट्रीज लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालयः नियर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉलोनी, दिल्ली रोड, हिसार-125005 (हरियाणा) ईमेलः info@hisarmetal.com; वेबसाइटः www.hisarmetal.com फोनः (01662) 220067, 220367, 220738, फैक्सः (011) 43851119. CIN: L74899HR1990PLC030937

31 मार्च, 2019 को समाप्त तिमाही और वर्ष के लिए अंकेक्षित वित्तीय परिणाम (रू. लाखाँ मे निर्दिष्ट को छोडकर)

	विवरण	समाप्त तिमाही 31.03.2019 (अंके दिशत)	समाप्त तिमाही 31.03.2018 (अंके क्षित)	समाप्त वर्ष 31.03.2019 (अंके क्षित)	समाप्त वर्ष 31.03.2018
- 100			, ,		(अंके क्षात)
1	प्रचालन से कुल आय	5660	5766	20756	23646
2	अवधि के लिए शुद्ध लाभ / (हानि) (कर, अपवादात्मक और / व असाधारण मदों से पूर्व)	236	189	700	745
3	कर से पूर्व अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (अपवादात्मक और/व असाधारण मदों के बाद)	236	189	700	745
4	कर के बाद अवधि के लिए शुद्ध लाम/(हानि) (अपवादात्मक और/व असाधारण मदों के बाद)	175	129	532	513
5	अवधि के लिए कुल व्यापक आय [अवधि के लिए लाम/(हानि) (कर के बाद) और अन्य व्यापक आय (कर के बाद) शामिल]	175	125	532	497
6	इक्विटी शेयर पूंजी	540	540	540	540
7	रिजर्व्स (पुनर्मुल्यांकन रिजर्व्स को छोडकर) जैसा कि अंकेक्षित बैलेंस शीट में दिखाया गया है			1868	1401
8	प्रति शेयर आय (रू. 10/- प्रत्येक) (चालू और बंद प्रचालनों के लिए) बेसिक एवं डायल्युटिड	3.24	2.31	9.85	9.20

नो टः

- आज यानि 29 मई 2019 को आयोजित बैठक में उपरोक्त अंकेक्षित परिणामों की समीक्षा लेखा समिति द्वारा की गई है और निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया है। कंपनी अधिनियम, 2013 की घारा 133 के साथ पठित कंपनी (भारतीय लेखाकरण मानक) नियम, 2015 के यथा संशोधित
- के तहत यह वित्तीय परिणामों को भारतीय लेखाकरण मानक (इंड-एएस) द्वारा तैयार किए गया है। गृडस एंड सर्विस टॅंक्स (जीएसटी) की लागू होने की तारीख 01 जुलाई, 2017 तक, परिचालन से राजस्व, प्रभावी तिथि के
- बाद, जीएसटी के शुद्ध होने का खुलासा किया गया है, जबकि उत्पाद शुल्क और उपकर पिछले अवधि में व्यय का हिस्सा बने थे। तदनसार, 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए राजस्व और व्यय 31 मार्च 2018 को समाप्त पिछले वर्ष के साथ त्तनीय नहीं हैं।
- निदेशक मंडल ने आज यानि 29 मई 2019 को आयोजित अपनी बैठक में वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए प्रत्येक रू 10 के इक्विटी शेयरों पर @10% यानि रू 1/- प्रति शेयर के लामांश सिफारिश की है जो कि बार्षिक आम बैठक में सदस्यों के अनुमोदन के अधीन है।
- कंपनी एकल खंड में काम रही है इसलिए खंड वार रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं है।
- पिछली अवधियों के लिए संबंधित आंकडें वर्गीकरण के अनुरूप करने के लिए जहां भी आवश्यक हो, पुनःव्यवस्थित /पुनर्वर्गीकृत किया गया है।
- अंतिम तिमाही के आंकड़े. पूर्ण वित्तीय वर्ष के संबंध में अंकेझित आंकड़ों और वित्तीय वर्ष के लिए तीसरी तिमाही तक के प्रकाशित वर्ष के आंकड़ों के बीच संतुलन आंकड़े हैं।
- सेबी (लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताओं) विनियम, 2015 के विनियम 33 के अनुसार, स्टॉक एक्सचेंज के साथ दर्ज की गई ऊपरोक्त वित्तीय परिणामों का विस्तृत प्रारूप का उद्धरण है। वित्तीय परिणामों का सम्पूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट अर्थात (www.bseindia.com a www.nseindia.com) और कंपनी की वेबसाइट (www.hisarmetal.com) पर उपलब्ध है।

कते और निदेशक मंडल की ओर से हस्ता/-(अभिराम तायल) प्रबंध निदेशक

तिथा : 29 मई, 2019

स्थान : हिसार (हरियाणा)



बैंक ऑफ़ बड़ौदा Bank of Baroda फोन: 011-23448841, मो,- 9584317482, ई—मेल: armdel@bankofbaroda.com

सदंर्भः एनपीए खाता मैसर्स मेटाफॉर एक्सपोर्ट्स प्रा. लि. शाखा : जेडओएसएआरबी शाखा, नई दिल्ली, जानबझकर डिफॉल्टकर्ता की फोटो प्रकाशन जनसाधारण को सुचित किया जाता है कि बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा निम्नांकित व्यक्तियों को बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंग्डिया के दिशा-निर्देशानुसार निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए जानबूझकर डिफॉल्टकर्ता घोषित किया गया है।

नामः पी एन खन्ना, अंजू खन्ना, समीर खन्ना

पताः सी-3/2, डीएलएफ-1, गुरूग्राम,



बैंक ने उक्त व्यक्तियों को जानबूझकर डिफॉल्टकर्ता घोषित करने के निर्णय सम्बंधी उपयुक्त संचार भेजा था। रिज़र्व बैंक ऑफ इण्डिया के निर्देशानुसार जनसाधारण की सूचना के लिए बैंक जानबूझकर डिफॉल्टकर्ता की फोटोग्राफ प्रकाशित करता हैं। मुख्य प्रबंधक, बैंक ऑफ बडौदा




India's International Bank बेडओएसएआरबी, 9वीं तल, बैंक ऑफ़ बड़ौदा भवन, 16, संसद मार्ग, नई दिल्ली—110001 फोन : 011-23448841, मो.- 9584317482, ई—मेल : armdel@bankofbaroda.com

<u>सार्वजनिक सूचना</u> सदंर्भः एनपीए खाता मैसर्स सनवे इन्फ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज लि. शाखा ः जेडओएसएआरबी शाखा, नई

दिल्ली, जानबुझकर डिफॉल्टकर्ता की फोटो प्रकाशन जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा निम्नांकित व्यक्तियों को बैंक 🆯 रिजर्व बैंक ऑफ इंप्डिया के दिशा–निर्देशानुसार निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए जानबुझकर डिफॉल्टकर्ता घोषित किया गया है।

1. श्री विजय कुमार सिंघानिया, 2. श्री कौशिक अग्रवाल पताः महिंद्र सिंह कम्पाउंड, गाँव सरहुल,





मुख्य प्रबंधक, बैंक ऑफ बड़ौदा

सदंर्भः एनपीए खाता मैसर्स फॉल्कन टैक्नो सिस्टम्स प्रा. लि. (पूर्व में मैसर्स एमवीएल टैलीकॉम लि.) शाखा : जेडओएसएआरबी शाखा, नई दिल्ली, जानबुझकर डिफॉल्टकर्ता की फोटो प्रकाशन जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा निम्नांकित व्यक्तियों को बैंक 🖊 रिजर्व बैंक ऑफ इंग्डिया के दिशा—निर्देशानुसार निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए जानबुझकर

Sd/-

DIN: 00057151

 मैसर्स फॉल्कन टैक्नो सिस्टम्स प्रा. लि. (पूर्व में मैसर्स एमवीएल टैलीकॉम लि.) 2. श्री प्रेम अदीप ऋषि (निदेशक)

डिफॉल्टकर्ता घोषित किया गया है।



बैंक ने उक्त व्यक्तियों को जानबूझकर डिफॉल्टकर्ता घोषित करने के निर्णय सम्बंधी उपयुक्त संचार भेजा था। डिफॉल्टकर्ता की फोटोग्राफ प्रकाशित करता हैं। मुख्य प्रबंधक, बैंक ऑफ बड़ौदा



बैंक ऑफ़ बड़ौदा Bank of Baroda India's International Bank जेडओएसएआरबी, 9वीं तल, बैंक ऑफ़ बड़ौदा भवन, 16, संसद मार्ग, नई दिल्ली—110001 फोन: 011-23448841, मो.- 9584317482, ई-मेल: armdel@bankofbaroda.com

सार्वजनिक सुचना सदंर्भः एनपीए खाता मैसर्स एम.एस. टेडर्स शाखा : जेडओएसएआरबी शाखा, नई दिल्ली,

जानबुझकर डिफॉल्टकर्ता की फोटो प्रकाशन जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा निम्नांकित व्यक्तियों को बैंक 🖊 रिजर्व बैंक ऑफ इंप्डिया के दिशा—निर्देशानुसार निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए जानबुझकर डिफॉल्टकर्ता घोषित किया गया है।

नामः

 मैसर्स एम.एस ट्रेडर्स (कर्जदार) 2. श्री मनोज कुमार (पार्टनर)

3. श्री पन्ना लाल (पार्टनर)


बैंक ने उक्त व्यक्तियों को जानबूझकर डिफॉल्टकर्ता घोषित करने के निर्णय सम्बंधी उपयुक्त रिज़र्व बैंक ऑफ इण्डिया के निर्देशानुसार जनसाधारण की सूचना के लिए बैंक जानबूझकर डिफॉल्टकर्ता की फोटोग्राफ प्रकाशित करता हैं।



पार्वजनिक सूचना सदंर्भः एनपीए खाता मैसर्स जय दुर्गा ट्रेडिंग कम्पनी शाखा : जेडओएसएआरबी शाखा, नई दिल्ली, जानबुझकर डिफॉल्टकर्ता की फोटो प्रकाशन

जनसाधारण को सचित किया जाता है कि बैंक ऑफ बडौदा द्वारा निम्नांकित व्यक्तियों को बैंक 🖊 रिजर्व बैंक ऑफ इंग्डिया के दिशा–निर्देशानुसार निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए जानबुझकर डिफॉल्टकर्ता घोषित किया गया है।

 श्री राजेश कुमार पताः 3/572, सैक्टर-5, वसुंधरा, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश — 201012







Balmer Lawrie & Co. Ltd. (A Government of India Enterprise)

(A Miniratna - I PSE)

DIN 00081453

पंजीकृत कार्यालयः 21 नेताजी सुभाष रोड, कोलकाता-700 001 फोन नं. : 033-2222 5313, फैक्स नं.: 033 - 2222 5292 ई-मेल: bhavsar.k@balmerlawrie.com, वेबसाइट: www.balmerlawrie.com सीआईएन: L15492WB1924GOI004835



31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय परिणाम का सारांश

				720				₹ लाख में
- 90			\$1 P	स्टैंडएलोन	8 8		समे	कित
क्रम सं.	विवरण	31.03.2019 को समाप्त 3 माह (अलेखापरीक्षित)	31.12.2018 को समाप्त 3 माह (अलेखापरीक्षित)	31.03.2018 को समाप्त 3 माह (अलेखापरीक्षित)	31.03.2019 को समाप्त वर्ष (लेखापरीक्षित)	31.03.2018 को समाप्त वर्ष (लेखापरीक्षित)	31.03.2019 को समाप्त वर्ष (लेखापरीक्षित)	31.03.2018 को समाप्त वर्ष (लेखापरीक्षित)
1.	परिचालन से कुल आय	51883.59	40238.57	51620.45	185672.35	182904.33	183300.10	180717.56
2.	अवधि हेतु शुद्ध लाभ/(हानि) (कर, विशिष्ट और/ अथवा असामान्य मद पूर्व)	12496.95	4437.38	11621.69	28010.48	26111.51	24657.21	23829.97
3.	कर पूर्व अवधि हेतु शुद्ध लाभ/(हानि)(विशिष्ट और/अथवा असामान्य मद उपरांत)	12496.95	4437.38	11621.69	28010.48	26111.51	24657.21	23829.97
4.	कर उपरांत अवधि हेतु शुद्ध लाभ/(हानि)(विशिष्ट और/ अथवा असामान्य मद उपरांत)	8828.18	2690.38	8794.69	18850.18	18481.51	16110.50	16481.38
5.	अवधि हेतु कुल समग्र आय [जिसमें अवधि हेतु लाभ/(हानि) (कर उपरांत) और अन्य समग्र आय (कर उपरांत) शामिल है]	8225.98	2690.38	8794.69	18247.98	18637.72	15508.30	16637.59
6.	इक्विटी शेयर पूंजी	11400.25	11400.25	11400.25	11400.25	11400.25	11400.25	11400.25
7.	पूर्ववर्ती वर्ष के लेखापरीक्षित तुलन पत्र में दर्शाए अनुसार आरक्षित (पुनर्मूल्यांकन आरक्षित के अलावा)	_	-	-	118620.19	114185.89	140552.84	134293.86
8.								
	(1) मूल (₹)	7.74	2.36	7.71	16.53	16.21	14.13	14.46
	(2) द्रवित (₹)	7.74	2.36	7.71	16.53	16.21	14.13	14.46

(2) द्रवित (₹) टिप्पणियाँ:

स्थानः कोलकाता

उपर्युक्त विवरण सेबी (सूचीयन दायित्वों व प्रकटीकरण आवश्यकताओं) विनियमन, 2015 के विनियमन 33 के अधीन स्टॉक एक्सचेंजों के पास दाखिल किए गए तिमाही/वार्षिक वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का सारांश है। तिमाही/वार्षिक वित्तीय परिणामों का संपूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट www.nseindia.com तथा www.bseindia.com और कंपनी की वेबसाइट www.balmerlawrie.com पर उपलब्ध है।

बामर लॉरी एण्ड कं. लिमिटेड





Balmer Lawrie

निदेशक मंडल की ओर से

डीआईएन: 07475677

निदेशक (वित्त) एवं सीएफओ

(एस.एस. खुंटिया)



पंजीकृत कार्यालयः 94, 1ला तल, शम्भ दयाल बाग मार्ग,

ओखला औद्योगिक क्षेत्र फेज-III के निकट, पुराना ईश्वर नगर, नई दिल्ली-110020 टेली.: 011-40551200 * फैक्स: 011-40551280-81 * ई-मेल: ccil@cordscable.com

वेबसाईटः www.cordscable.com * CIN: L74999DL1991PLC046092 31 मार्च. 2019 को समाप्त तिमाही तथा वर्ष के लिए अंकेक्षित स्टैंडएलॉन वित्तीय परिणाम

					(राशि	ह. लाखों में)	
		समाप्त तिमाही			समाप्त वर्ष		
	विवरण	31.3.2019	31.12.2018	31.3.2018	31.3.2019	31.3.2018	
300	v s	अनंकेक्षित	अनंकेक्षित	अनंकेक्षित	अंकेक्षित	अंकेक्षित	
1.	परिचालनों से कुल आय	11404.786	11276.71	11015.11	41850.01	36713.53	
2.	अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (कर, विशिष्ट एवं/अथवा असाधारण	361.54	296.17	358.17	1133.98	921.36	
	मदों से पूर्व)						
3.	कर से पूर्व अवधि के लिए शुद्ध लाभ/ (हानि) (विशिष्ट एवं/अथवा	361.54	296.17	358.17	1133.98	921.36	
	असाधारण मदों के बाद)						
4.	कर से बाद अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (विशिष्ट एवं/अथवा	228.50	194.5	268.87	735.42	626.20	
	असाधारण मदों के बाद)						
	अवधि हेतु कुल व्यापक आय (अवधि हेतु (कर के बाद) लाभ/(हानि)	230.80	194.09	268.87	736.25	624.23	
	एवं अन्य व्यापक आय (कर के बाद) से शामिल						
	इक्विटी शेयर पूंजी (प्रदत्त) (सम मूल्य रु. 10/- प्रति)	1292.78	1292.78	1292.78	1292.78	1292.78	
	आरक्षित (पुनर्मूल्यांकन आरक्षितों के अतिरिक्त)	-	-	-	12169.26	11433.02	
8.	आय प्रति शेयर (जारी तथा अवरुद्ध प्रचालनों के लिए)						
	क) मूल	1.79	1.50	2.08	5.70	4.83	
	ख) तरल	1.79	1.50	2.08	5.70	4.83	
£	रेप्पणी:		18 87			120	

- i) उपरोक्त परिणामों की ऑडिट किमटी द्वारा समीक्षा की गई तथा 29 मई, 2019 को आयोजित उनकी बैठक में निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किये गये। सांविधिक अंकेक्षक ने इन वित्तीय परिणामों की ऑडिट की है।
- ii) कम्पनी इंड एएस-108 में परिभाषित रूप में केवल एक खंड में प्रचालन करती है. अतएव खंड रिपोर्टिंग कम्पनी के लिये
- iii) उपरोक्त सेबी (सूचीयन दायित्व तथा उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन 33 के अंतर्गत स्टॉक एक्सचेंजों में दाखिल की गई 31 मार्च, 2019 को समाप्त तिमाही तथा वित्त वर्ष के स्टैंडएलॉन वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का सार है। इन वित्तीय परिणामों का सम्पूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाईट (www.bseindia.com, www.nseindia.com) तथा कम्पनी की वेबसाईट (www.cordscable.com) पर उपलब्ध है।
- iv) उपरोक्त अवधियों के लिये विवरण देने के लिये कम्पनी का कोई अन्य विशिष्ट मद नहीं है।
- v) इन स्टैंडएलॉन परिणामों को कम्पनी (भारतीय लेखा मानक) नियमावली, 2015 तथा कम्पनी (भारतीय लेखा मानक) संशोधन नियमावली. 2016 के नियम 3 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम. 2013 की धारा 133 के अंतर्गत निर्दिष्ट भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) के अनुसार तथा सेबी (सुचीयन दायित्व तथा उद्घाटन अपेक्षा) विनियम, 2015 के अनुसार तैयार किया गया है।
- vi) 1 अप्रैल, 2018 से कम्पनी ने समेकित प्रभावी पद्धत्ति का उपयोग करते हुए इंडएएस 115 ''ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व'' को अपनाया है यह मानक रेट्रोस्पेक्टिव रूप से केवल ऐसे अनुबंधों पर ही प्रयुक्त किया गया है जो 1 अप्रैल, 2018 तक परा नहीं किये गये थे तथा स्टैंडएलॉन वित्तीय परिणामों में तलनात्मक जानकारी की पनर्व्याख्या नहीं की गई है। इस मानक को स्वीकार करने से कम्पनी के वित्तीय परिणामों पर कोई भौतिक प्रभाव नहीं पडा है।
- vii) चालू अवधि के आंकड़ों के साथ उसे तुलनीय बनाने के लिये जहाँ भी जरूरी हुआ पूर्व तिमाही/वर्ष के आँकड़े पुनर्वर्गीकृत/पुनर्समूहीकृत तथा पुनर्व्यवस्थित किये गये हैं।
- viii) 31.3.2019 एवं 31.3.2018 को समाप्त तिमाही के संदर्भ में आँकड़े सम्पूर्ण वित्त वर्ष तथा संबंधित वित्त वर्ष की अंतिम तिमाही तक प्रकाशित तिथि तक वर्ष के अनंकेक्षित आँकड़ों के संदर्भ में अंकेक्षित आँकड़ों के बीच संतुलक आँकड़े हैं।
- ix) 1 जुलाई, 2017 से प्रचालनों से राजस्व को वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम के कार्यान्वयन के बाद निवल करों एवं ड्यूटीज में प्रस्तुत किया जाता है। अतः 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष की कुल आय तथा कुल व्यय पूर्व अविध से तुलनीय नहीं हैं।

बोर्ड के आदेश से नवीन सॉहनी स्थानः नई दिल्ली (प्रबंध निदेशक) तिथि: 29.5.2019 DIN: 00893704

जगत ट्रेडिंग एंटरप्राईजेज लिमिटेड

CIN: U74999DL1982PLC014411

पंजी. कार्यालय: 208, मैग्नम हाउस-II, करमपुरा कम्युनिटी सेन्टर, नई दिल्ली-110015 E-mail ID: jagattradingenterpriseslimited@gmail.com, Website: www.jtel.co.in

31 मार्च, 2019 को समाप्त तिमाही तथा वर्ष के अंकेक्षित परिणामों का विवरण (रु. हजारों में) समाप्त तिमाही समाप्त वर्ष क्रम सं. विवरण 31.3.2019 31.12.2018 31.3.2018 31.3.2019 31.3.2018 अंकेक्षित अनंकेक्षित अंकेक्षित अंकेक्षित अंकेक्षित क) परिचालनों से आय 12379.01 1213.68 3960.39 15799.37 36687.90 खि)अन्य आय 46.81 121.59 71.00 228.40 296.06 4081.98 कल आय (1) 12450.01 36983.96 1260.49 16027.77 2 व्यय क) व्यापार में भंडार में क्रय 25964.69 2516.81 5748.16 8189.45 25239.6 ख) व्यापार में भंडार में इन्वेन्टरी में परिवर्तन (3122.21)(2435.60)418.14 (8834.67) (4765.39)ग) कर्मचारी पारिश्रमिक 1121.35 1437.15 1076.38 4750.65 4631.47 घ) वित्तीय लागत 558.62 589.64 754.52 2635.32 1390.52 ङ) मुल्य ह्रास एवं परिशोधन व्यय 36.85 12.72 4.59 5.43 23.75 च) परिसम्पत्तियों के लिये प्रावधान (1390.60) 1273.60 1147.50 छ)|अन्य आय 633.37 351.31 8459.27 8227.22 1131.52 कुल व्यय (2) 7250.91 10795.23 33302.32 35604.54 828.21 विशिष्ट, असाधारण तथा कर से पूर्व लाभ/ (हानि) (3168.93)1379.42 432.28 1654.78 (17274.55)(1-2)4 विशिष्ट मद (2992.38)असाधारण मद एवं कर से पूर्व लाभ/ (हानि) 3424.66 (3168.93)1654.78 (17274.55)1379.42 (3-4)6 असाधारण मद कर से पूर्व लाभ (5-6) 3424.66 (3168.93)1654.78 (17274.55) 1379.47 कर के खर्चे (चालु कर मैट तथा आस्थगित कर 346.44 (275.63)338.45 (300.21)393.92 |सहित्र) अवधि के लिये शुद्ध लाभ/ (हानि) (7-8) 3078.23 (2893.30)1316.33 (16974.34) 985.50 10 प्रदत्त इक्विटी शेयर पुंजी (सम मुल्य रु. 10/-50,816.40 50,816.40 9964.00 50816.40 9964.00 11 पूर्व लेखा वर्ष के तुलन पत्र के अनुसार 98135.43 40308.69 98135.43 पुनर्मुल्यांकन आरक्षितों के अतिरिक्त आरक्षित 31 मार्च. 31 मार्च. 31 मार्च. 31 मार्च. 31 मार्च. 2019 को 2018 को 2019 को 2018 को 2018 को 12 i) आय प्रति शेयर (असाधारण मदों से पर्व) (सम मुल्य रु. 10/- प्रति) (0.33)0.99 1.32 (वार्षिकीकृत नहीं) (वार्षिकीकृत नहीं) (वार्षिकीकृत नहीं) मिल एवं तरल 12 ii) आय प्रति शेयर (असाधारण मदों के बाद) (सम मूल्य रु. 10/- प्रति) (0.33)0.99 मूल एवं तरल (वार्षिकीकृत नहीं) (वार्षिकीकृत नहीं) (वार्षिकीकृत नहीं) भाग-11: 31.03.2019 को परिसम्पत्तियों देयताओं का स्टैंडएलॉन विवरण

	विवरण	31.03.2019	31.03.201
		अंकेक्षित	अंकेक्षित
क.	इक्विटी एवं देयताएँ		
	1. शेयरधारकों की निधि		
	क) शेयर पूंजी	50816.40	9964
	ख) आरक्षित एवं अधिशेष	40308.69	9813
	उपयोग- शेयरधारकों की निधि	91125.09	108099.4
	2. गैर-चालू देयताऐं	1427.89	1240
	क) दीर्घ कालिक प्रावधान		
	उप- योग- गैर- चालू देयताऐं	1427.89	124
	3. चालू देयताऐं		
	क) ट्रेड पेयेबल्स	20000.00	2650
	सूक्षम उद्यमों तथा लघु उद्यमों को देय कुल बकाया	-	
	सूक्षम उद्यमों तथा लघु उद्यमों को देय कुल बकाया	-	98
	खं) अन्य चालू देयताएँ	2480.63	
	क) संक्षिप्त कालिक प्रावधान	60.00	11:
	उप- योग- चालू देयताऐं	22540.63	2671
	कुल इक्विटी एवं देयताऐं	115093.60	13606
	विवरण	31.3.2019 अंकेक्षित	31.3.201 अंकेक्षित
ख.	परिसम्पत्तियां		
	1. गैर-चालू परिसम्पत्तियां		
	क) निर्धारित परिसम्पत्तियां		
	1) प्रत्यक्ष परिसम्पत्तियां	29853.74	2987
	ख) दीर्घ कालिक निवेश	39506.21	3664
	ग) आस्थगित कर परिसम्पत्तियां (शुद्ध)	725.90	35
	घ) दीर्घ-कालिक ऋण एवं अग्रिम	1679.88	272
	उप-योग- गैर-चालू परिसम्पितयां	71765.73	6960
	2. चालू परिसम्पत्तियां		
	क) चालू निवेश	5500.00	828
	ख) इन्वेन्टरीज	16433.64	759
	ग) ट्रेड रिसीवैबल्स	2902.38	161
	घ) नगद एवं नगद के समकक्ष	2599.13	349
	ड) संक्षिप्त-कालिक ऋणों एवं अग्रिमों	15892.72	4546
	उप-योग- चालू परिसम्पत्तियां	43327.88	6645
	कुल परिसम्पतियां	115093.60	13606

1. 31 मार्च, 2019 को समाप्त तिमाही एवं वर्ष के लिये कम्पनी के अंकेक्षित वित्तीय परिणाम के विवरणों को 28 मई. 2019 को आयोजित उनकी बैठक में

निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किये गये। 2. ये वित्तीय परिणाम सांविधिक ऑडिटरों द्वारा सीमित समीक्षा के अधीन रखे गये हैं।

3. लेखा मानक 17 में परिभाषित खंडीय विवरण लागू नहीं है। 4. 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के अन्य खर्चे में रु. 5,500 हजार के चंदे शामिल हैं।

स्थानः नई दिल्ली

तिथि: 28.5.2019

5. जहाँ भी जरुरी हुआ, पूर्व वर्ष, तिमाही एवं वित्त वर्ष के आंकड़े पुनर्वर्गीकृत/पुनर्व्यवस्थित किये गये हैं।

जगत ट्रेडिंग एण्टरप्राईजेज लिमिटेड के लिये

(प्रवीण कुमार गोयल)

DIN No.: 00021153

तिथि: 28 मई, 2019

Balmer Lawrie INDUSTRIAL PACKAGING

Balmerol)



